

# प्रेस नोट थाना खजनी दिनांक 03-09-2021

## **चोरी के लगभग 02 लाख के जेवरात व 15000 रुपये की नगदी के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार व एक बालअपचारी हिरासत मे**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के दिशा निर्देशन में पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकारी खजनी के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक खजनी के नेतृत्व में दिनांक 03.09.2021 को व0उ0नि0 जगदीप सिंह मय हमराह उ0नि0 अनीश कुमार सिंह, कां0 पिन्टू चौहान, कां0 शान्तनू तिवारी, कां0 रविन्द्र यादव के देखभाल क्षेत्र , तलाश वांछित अभियुक्त में थाना क्षेत्र में मामूर था कि गश्त करते हुए कस्बा उनवल में पहुँचा कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि तीन दिन पहले वार्ड नं0- 14 उनवल से रात्रि के समय घर से जेवर व रुपये चोरी करने वाले दो व्यक्ति कुछ ही समय पश्चात चुराये हुए जेवर को बेचने के लिए जरलही पुल के रास्ते महुआडाबर की ओर जाने वाले है यदि जल्दी किया जाये तो पकड़े जा सकते है । इस सूचना पर विश्वास कर पुलिस टीम जरलही पुल के पास आकर इन्टर लाकिंग पत्थरो की आंड़ में खड़े होकर मुखबीर द्वारा बताये हुए व्यक्तियों का इंतजार करने लगे जैसे ही दोनो व्यक्ति जरलही पुल की ओर आगे बढ़े हम पुलिस वालो ने दोनो व्यक्तियों को घेर कर पकड़ लिया गया, नाम पता पूछने पर पहले ने अपना नाम मोनू खान पुत्र जलालुद्दीन खान निवासी वार्ड नं0- 14 नगर पंचायत उनवल थाना खजनी जनपद गोरखपुर बताया जिसकी जामा तलाशी से पर्स में एक अंगूठी मर्दाना पीली धातु व एक जोड़ी कान का सुई धागा पीली धातु तथा 200 रुपये के 75 नोट कुल 15000 रुपये बरामद हुए, दूसरे व्यक्ति (नाबलिंग) की जामा तलाशी से एक जोड़ी झुमका तीन तल्ला पीली धातु, एक लाकेट मय चैन पीली धातु तथा एक लेडीज अंगूठी पीली धातु बरामद हुआ व दोनो व्यक्तियों से बरामद आभूषण व रुपये के सम्बन्ध में पूछा तो दोनो ने एक साथ बताया कि तीन दिन पहले हम दोनो ने रात्रि में पड़ोस में रहने वाली साजमा खातून के घर से यह जेवर तथा रुपये चोरी किया था। अतः पकड़े गये दोनो व्यक्तियों को उनके जुर्म धारा 380, 457, 411 भादवि से अवगत कराते हुए अभियुक्त मोनू खान उपरोक्त समय करीब 11.10 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा बाल अपचारी को हमराही कां0 के निगरानी में उक्त समय पर लिया गया ।

### **गिरफ्तार अभियुक्त-**

1. मोनू खान पुत्र जलालुद्दीन खान निवासी वार्ड नं0- 14 नगर पंचायत उनवल थाना खजनी जनपद गोरखपुर
2. बालअपचारी

### **बरामदगी -**

01 अदद अंगूठी मर्दाना, 01 अदद लाकेट मय चैन, 01 जोड़ा झुमका, 01 जोड़ा सुई धागा (कान का), 01 अदद अंगूठी लेडीज सभी पीली धातु की कीमत लगभग कुल दो लाख रुपये व 15000 रुपये नगद

### **अभियोग का विवरण-**

मु0अ0सं0- 237/2021 धारा 457, 380, 411 भादवि थाना खजनी जनपद गोरखपुर ।

### **गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी व कर्मचारीगण-**

1. व0उ0नि0 जगदीप सिंह
2. उ0नि0 अनीश कुमार सिंह
3. कां0 पिन्टू चौहान
4. कां0 शान्तनू तिवारी
5. कां0 रविन्द्र यादव